

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2016 (अग्रहायण 5, 1938)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 5, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2016

(सेना शाखा)

सं. 238, दिनांक 14 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(लें0 के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से)

निम्नलिखित 292 कैडिटों को जो की 137 नियमित पाठ्यक्रम (58 डाईरेक्ट एन्ट्री, 177 एक्स एन डी ए तथा 57 एक्स ए सी सी) के सस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से तथा इनमे से एक जीसी एन/45906 (आई सी 81043एम) रिपुदमन सिंह राठौड़ है जो आयोग के समय एल एम सी थे। शेष—1 होने के बाद जीसी एन/45906 (आई सी 81043एम) रिपुदमन सिंह राठौड़ दिनांक 30 दिसम्बर 2015 पूर्वाह्न से, सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री),सेना अनुदेश 53/78 को विशेष

सेना अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी) यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
80903	एच रवि सोमअनगौवडा मूलिमनी	इन्फैन्ट्री
80904	एल ललित थपलियाल	इन्फैन्ट्री
80905	एन रविन्द्र यादव	इन्फैन्ट्री
80906	डब्ल्यू अग्रिम शर्मा	एसी
80908	एफ अमित कुमार भास्कर	आर्टी
80909	के जग प्रवेश	ईएमई
80911	एफ दीपक शर्मा	इन्फैन्ट्री
80912	के शिंजन चक्रवर्ती	सिग्नल्स
80913	एम अहूजा प्रतीक महेन्द्र	इन्फैन्ट्री
80914	पी आकाश भारद्वाज	इंजीनियर्स
80915	एक्स राम नाथ यादव	एओसी
80916	ए रुशिल पुंज	मैक
80917	एच निधिल मोहन	एएससी
80918	एल सन्तोषकुमार सौरापल्ली	एएडी
80919	एन कपिल धनखड	इन्फैन्ट्री
80920	एच आलोक नेगी	आर्टी
80921	एल अनुभव दलाल	एएससी
80922	एन करन थापा	आर्टी
80923	डब्ल्यू तुषार शर्मा	मैक
80925	एफ प्रदीप सिंह ठाकुर	इन्फैन्ट्री
80927	एम ऋषिकेश आर पाटील	आर्टी
80928	पी अमित देव	एओसी
80929	एक्स अनुपम अग्रवाल	आर्टी
80930	एम वैभव करनावत	एसी
80931	पी एस गुबेरा गांधी राज	इन्फैन्ट्री
80932	एक्स सुधीर कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
80933	ए दीपक कुमार	इन्फैन्ट्री
80934	एच हरदीप सिंह भेला	एसी
80935	एल वीर सिंह यादव	आर्टी
80936	एन तेजेन्द्र सिंह	आर्टी
80937	डब्ल्यू नायर अनिरुद्ध सुरेश	इन्फैन्ट्री
80938	वाई मोहित मयंक	इन्फैन्ट्री
80940	डब्ल्यू ई. चिरंजीवी	एएससी
80941	वाई बलबीर कुमार सारण	इंजीनियर्स
80942	एफ वैभव मिश्रा	सिग्नल्स
80943	के विक्रम सिंह	इन्फैन्ट्री
80944	एम आशीष सिंह	इन्फैन्ट्री
80945	पी ईशांक शर्मा	आर्टी
80946	एक्स हर्षनील डिगम्बर चोरे	एविएशन
80947	ए शगुन शर्मा	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
80948	एच	सुधीर शर्मा	आर्टी
80949	एल	मोहित मलिक	एओसी
80951	एच	अनिल कुमार	इंजीनियर्स
80952	एल	बलवंत सिंह भण्डारी	आर्टी
80953	एन	विक्रम सिंह खर्ब	एओसी
80955	वाई	अतिन बिष्ट	एविएशन
80956	एफ	जितेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
80957	के	अनिल कुमार	एएडी
80958	एम	अमिताभ प्रीतम	इन्फैन्ट्री
80959	पी	सुहास नामदेव वाघ	आर्टी
80960	के	अभिनेन्द्र कुमार सिंह	एएससी
80963	एक्स	अमृतेश कुमार	ईएमई
80964	ए	राहुल रेड्डी	ईएमई
80966	एल	निखिल कोतवाल	एएससी
80967	एन	आदित्तय चौधरी	इन्ट
80968	डब्ल्यू	शशांक कुमार सिंह	आर्टी
80970	एन	मनोज कुमार तिवारी	एसी
80971	डब्ल्यू	विनोद कुमार	आर्टी
80974	के	रोहित पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
80975	एम	भानु प्रताप सिंह	एओसी
80976	पी	पंकज भट्ट	ईएमई
80977	एक्स	अमनदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
80978	ए	दीपक राठी	इन्फैन्ट्री
80981	ए	शिव कुमार प्रधान	एएडी
80982	एच	अवनीश कुमार सिंह	आर्टी
80983	एल	शशी कुमार	आर्टी
80984	एन	उपेंद्र सिंह	एएससी
80985	डब्ल्यू	भानू प्रताप सिंह चौहान	एसी
80986	वाई	हरनिमर सिंह बहल	मैक
80988	के	अक्षय	इंजीनियर्स
80989	एम	भास्कर सिंह	इन्फैन्ट्री
80990	एफ	हरीश मोहन	एओसी
80991	के	आदिश खजूरिया	सिग्नल्स
80994	एक्स	हिमांशु चौधरी	आर्टी
80995	ए	अरुण कुमार एस	आर्टी
80996	एच	परमिंदर यादव	मैक
80998	एन	अनूप एम एस	एएडी
80999	डब्ल्यू	अमन	इन्फैन्ट्री
81000	एक्स	अमित तलवारा	इन्फैन्ट्री
81001	ए	मोहम्मद इमदाद अली	ईएमई
81002	एच	लाडाचे योगेश गिदू	इंजीनियर्स
81003	एल	यश शर्मा	इन्फैन्ट्री

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
81004	एन	शीतांशु शेखर	आर्टी
81005	डब्ल्यू	मोहम्मद अशरफ खान	इन्फैन्ट्री
81008	के	मयंक शुभम	एसी
81009	एम	दीपक कौशिक	एसी
81010	एफ	वैष्णव बीएस	आर्टी
81011	के	सीआर कार्तिक	एएडी
81012	एम	निपुण खजूरिया	एएडी
81014	एक्स	क्षितिज कुमार	इंजीनियर्स
81015	ए	सिंह कुणाल हरिनारायण	इन्ट
81016	एच	चौगुले अरुण अशोक	आर्टी
81017	एल	प्रत्यूश पि	इन्फैन्ट्री
81018	एन	बाज़हांग लिम्बु	इन्फैन्ट्री
81020	एल	बसंत कुमार तोमर	इन्फैन्ट्री
81021	एन	वैभव कटारिया	इन्फैन्ट्री
81022	डब्ल्यू	निखिल शुक्ला	ईएमई
81023	वाई	होलखोलेन खोंगसाया	इन्फैन्ट्री
81025	के	एम.वि.एन.वि सूर्य तेजा	एएससी
81027	पी	मिधुन मधुसूदनन	एएडी
81028	एक्स	विककी भण्डारी	एओसी
81029	ए	हिमांशु शर्मा	आर्टी
81030	पी	भरत मुरली	आर्टी
81031	एक्स	पार्थ सैनी	इन्फैन्ट्री
81032	ए	देवेश शर्मा	आर्टी
81033	एच	प्रणब एम	एओसी
81035	एन	मनस्वी शुक्ला	आर्टी
81036	डब्ल्यू	सुजित जे एस	इन्फैन्ट्री
81037	वाई	सौरभ कुमार दुबे	सिग्नल्स
81039	के	ध्रुव गुसाई	इन्फैन्ट्री
81040	वाई	शिवम पाण्डेय	आर्टी
81041	एफ	मोहित कुमार	एविएशन
81042	के	अर्पित कुमार उपाध्याय	मैक
81043	एम	रिपुदमन सिंह राठौड़	ईएमई
81045	एक्स	पावस तिवारी	इन्फैन्ट्री
81046	ए	प्रदीप पुंडलिक बन्नूर	इन्फैन्ट्री
81047	एच	शिशपाल सिंह	एओसी
81049	एन	चिराग	आर्टी
81050	एच	विकास ढाका	इन्फैन्ट्री
81051	एल	गोविंद सिंह बगडवाल	एएससी
81053	डब्ल्यू	सूद अनिल	एएससी
81054	वाई	विककी कुश्वाहा	एसी
81055	एफ	जग मोहन	एएससी
81056	के	अजय सहरावत	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
81057	एम	रवि रंजन कुमार सिंह	सिग्नल्स
81058	पी	डेनियल चबुंगबम	इन्फैन्ट्री
81059	एक्स	साहिल आहुजा	आर्टी
81060	एम	साबले गणेश चन्द्रकांत	मैक
81061	पी	रवि प्रताप चंद	इन्फैन्ट्री
81062	एक्स	अमोम बोनिथोईबा	आर्टी
81064	एच	अखिल कुमार	एओसी
81065	एल	नीरज लांबा	एएससी
81066	एन	पीवी विश्वनाथन	आर्टी
81067	डब्ल्यू	शांतनु निरंजन जोशी	इन्फैन्ट्री
81069	एफ	संदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
81070	डब्ल्यू	रोहित कुमार स्वामी	इन्फैन्ट्री
81071	वाई	मोहम्मद अकरम	इन्फैन्ट्री
81072	एफ	निखिल बिश्नोई	इन्फैन्ट्री
81074	एम	दीपक देवलाल	एएडी
81075	पी	युगल किशोर	आर्टी
81076	एक्स	शाहरुख एस अली	आर्टी
81077	ए	शिवानन्द बासप्पा पातयाली	आर्टी
81078	एच	संजीव कुमार राणा	इन्फैन्ट्री
81079	एल	रचित कोल्स	इन्फैन्ट्री
81080	ए	अखिल त्यागी	एएडी
81081	एच	रमन पंवार	इन्फैन्ट्री
81082	एल	रोहित शर्मा	आर्टी
81083	एन	अविजीत सरकार	मैक
81084	डब्ल्यू	धीरज आचार्य	आर्टी
81086	एफ	प्रतीक सिंह जादौन	एविएशन
81087	के	कुणाल सौरव	इन्फैन्ट्री
81088	एम	नरेन्द्र कुमार	एओसी
81091	एम	भरत प्रताप सिंह	एएससी
81094	ए	आशीष रंजन	ईएमई
81095	एच	सचिन अग्रवाल	आर्टी
81096	एल	अभिमन्यू सिंह	इंजीनियर्स
81097	एन	सूरज फर्त्याल	आर्टी
81098	डब्ल्यू	अरिजीत बोस	सिग्नल्स
81100	एच	सोमनाथ हिंगामिरे	इन्फैन्ट्री
81101	एल	तिवारी अमित कुमार ओमकारनाथ	एएससी
81103	डब्ल्यू	किरन सुरेश चव्हाण	इन्फैन्ट्री
81104	वाई	कुश बुधवार	एसी
81105	एफ	सुप्रीत सिंह हीरा	आर्टी
81106	के	गवास्कर ए	एओसी
81107	एम	जगदीप धनखड़	ईएमई
81108	पी	मनजिंदर सिंह	एसी

आई सी संख्या	नाम	आर्म / सर्विस
81111	पी पंकज यादव	एएससी
81113	ए अंकुश शर्मा	इन्फैन्ट्री
81116	एन वरुण ओक	एविएशन
81119	एफ एम दिलीप कुमार	एओसी
81120	डब्ल्यू अजय कुमार	इंजीनियर्स
81121	वाई शंकुल सेठी	एएससी
81122	एफ स्थिता प्रज्ञा राउत	एएडी
81123	के अरुण सिंह कैरा	इन्फैन्ट्री
81124	एम अभिषेक शुक्ला	इन्फैन्ट्री
81125	पी संदीप कार्की	इन्फैन्ट्री
81126	एक्स देशपांडे अमेय मिलिन्द	इन्फैन्ट्री
81127	ए युवराज सिंह	आर्टी
81129	एल मृदुल अग्रवाल	एएडी
81131	एच गिरी बाबू वी	ईएमई
81132	एल गौरव डुकरे	इन्फैन्ट्री
81135	वाई सोविन सोनम	इन्ट
81136	एफ प्रशांत नौनी	इंजीनियर्स
81138	एम अनुभव मिश्रा	मैक
81139	पी सार्थक निगम	एएडी
81140	के रविंदर सिंह रौतेला	आर्टी
81141	एम आशीष मेहता	एसी
81142	पी सन्नी शर्मा	इन्फैन्ट्री
81143	एक्स अभिषेक कुमार	एएससी
81144	ए कुलदीप सिंह राठौर	आर्टी
81146	एल माईबम दिपु सिंह	इन्फैन्ट्री
81147	एन चव्हाण रोहन सुधाकर	आर्टी
81148	डब्ल्यू चेतन माथुर	आर्टी
81151	डब्ल्यू सुरेन्द्र कार्की	एएससी
81152	वाई मनोज कुमार भादू	एसी
81153	एफ भीष्म सैनी	इन्फैन्ट्री
81154	के शशी कुमार	इन्फैन्ट्री
81155	एम सुधीर यादव	एएडी
81157	एक्स लाईफरकम्प मार्शल सिंह	इन्फैन्ट्री
81158	ए कृष्णकान्त	इन्फैन्ट्री
81159	एच जितेन्द्र सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री
81161	ए अनुदीप सोनी	एएडी
81162	एच दावा तमांग	इन्फैन्ट्री
81163	एल अश्विन विजय कुमार	इन्फैन्ट्री
81164	एन संतोष कुमार सिंह	आर्टी
81165	डब्ल्यू ज्योतिर्मोय बोरो	एएससी
81167	एफ बिजेन्द्र कुमार चाहर	आर्टी
81168	के पीयूष भूटानी	एसी

आई सी संख्या		नाम	आर्म / सर्विस
81169	एम	रंजीत सिंह	मैक
81170	एफ	देवेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
81171	के	थांचा नईसेल	इन्फैन्ट्री
81172	एम	पाटिल राहुल रेड्डी	इन्फैन्ट्री
81176	एच	प्रणयाजीत सिंह	ईएमई
81177	एल	अर्पित गुप्ता	आर्टी
81178	एन	पुष्पेन्द्र कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
81179	डब्ल्यू	मंयक चावडा	इन्ट
81180	एल	डेलेक्स नामग्याल	इन्फैन्ट्री
81183	वाई	कार्तिक यादव	एएडी
81185	के	तृप्तप्रीत सिंह	एएससी
81186	एम	मोहम्मद तफज्जुल	आर्टी
81189	ए	गगनजीत सिंह ढिण्डसा	आर्टी
81190	पी	अविनाश नेगी	ईएमई
81191	एक्स	मनीष कुमार यादव	आर्टी
81192	ए	कमल शर्मा	इंजीनियर्स
81193	एच	राहुल शर्मा	आर्टी
81194	एल	अखिलेश कुमार	एओसी
81195	एन	विशाल शर्मा	इन्फैन्ट्री
81196	डब्ल्यू	अभिषेक	सिग्नल्स
81197	वाई	दीपान्कर नाथ	इन्फैन्ट्री
81198	एफ	मोहित यादव	एएससी
81199	के	रोहित शर्मा	इन्फैन्ट्री
81200	एन	मोहन सिंह डबास	एसी
81201	डब्ल्यू	यू सूरनदश सिंह	इन्ट
81202	वाई	भागी कृष्णा कुमार	एसी
81203	एफ	रोहित कुमार सिंह	आर्टी
81204	के	आदित्य यादव	इन्फैन्ट्री
81205	एम	शुवादीप पॉल	आर्टी
81206	पी	राजेन्द्र कुमार सिंह	एएससी
81207	एक्स	प्रियहर्ष	इन्फैन्ट्री
81208	ए	पारखे गौरिश नारायण	आर्टी
81211	ए	विजय	एविएशन
81212	एच	शक्ति प्रताप सिंह कंवर	इन्फैन्ट्री
81213	एल	अशोक चौधरी	एएडी
81215	डब्ल्यू	कर्ण यादव	आर्टी
81216	वाई	सचिन पेंवार	इन्फैन्ट्री
81217	एफ	अरुण यादव	एसी
81219	एम	विकास चन्द्र	ईएमई
81220	एफ	गौरव खजूरीआ	मैक
81222	एम	विश्वेन्द्र कुमार गिल	आर्टी

आई सी संख्या	नाम	आर्म / सर्विस
81223	पी अरुण वर्मा	इन्फैन्ट्री
81224	एक्स अशोक सिंह परिहार	इन्फैन्ट्री
81225	ए प्रतीक लाकरा	इन्फैन्ट्री
81226	एच धनवीर सिंह	एसी
81227	एल जॉन पाल सिंह	एसी
81228	एन यासिर अख्तर	एएससी
81229	डब्ल्यू नूकूल सिंह	इंजीनियर्स
81230	एल नवनीत	आर्टी
81231	एन अमन	इन्फैन्ट्री
81232	डब्ल्यू राहुल कुमार	आर्टी
81234	एफ अभिनव वसनिया	आर्टी
81235	के अरुण एम नायर	एविएशन
81237	पी राजिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
81239	ए सचिन कुमार	इन्फैन्ट्री
81242	ए अश्विन एस पल्लिपरम्बिल	आर्टी
81243	एच प्रखर प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
81244	एल दीपक गोस्वामी	ईएमई
81245	एन देवांश भुटानी	आर्टी
81250	वाई ईशान राठौर	इन्फैन्ट्री
81251	एफ परमजीत दहिया	एओसी
81252	के दक्ष धन्खड़	एसी
81255	एक्स नितिन शर्मा	आर्टी
81256	ए अभिषेक कुमार	आर्टी
81257	एच एमिल जॉर्ज साईमन	एएडी
81258	एल आशीष दहिया	इंजीनियर्स
81259	एन विवेक राठी	मैक
81260	एच अन्नाद ए ए	इन्फैन्ट्री
81261	एल सौरभ सिंह	इन्फैन्ट्री
81262	एन कंवरदीप सिंह	मैक
81263	डब्ल्यू अभिषेक शर्मा	इन्फैन्ट्री
81265	एफ जोडी टॉम मैथ्यू	ईएमई
81266	के चन्द्रदीप कुमार	आर्टी
81267	एम सौरभ कुमार	इन्फैन्ट्री
81269	एक्स राहुल सिंह यादव	आर्टी

आई सी संख्या		नाम	आर्म/सर्विस
81271	पी	राघवेन्द्र प्रताप सिंह राघव	एएससी
81272	एक्स	योगेन्द्र मलिक	एएससी
81274	एच	वरुण यादव	इन्फैन्ट्री
81275	एल	राहुल रॉय	आर्टी
81276	एन	सर्वेश कुमार राठौर	एओसी
81277	डब्ल्यू	ऋषभ दमन	आर्टी
81279	एफ	ध्रुव धनखड	एओसी
81280	डब्ल्यू	दीपक भारद्वाज	इन्ट
81282	एफ	सौमित्र सिंह	एओसी

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(लें0 के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80231एफ राहुल मलिक (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80230 वाई के एस क्रान्ति किरन रॉय (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80260डब्ल्यू विवेक राणा (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80259एफ निखिल कुमार वर्मा (आर्टी) के नीचे,आई सी संख्या 80414एक्स युमलाम जोस (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80413पी नितेश कुमार सिंह (एविएशन) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(लें0 के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79949वाई प्रवेश सिंह (इन्फैन्ट्री)की वरिष्ठता आई सी संख्या 79948 डब्ल्यू शिवानन्द जी पी (इंजीनियर्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(लें0 के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78536एच अभिजीत श्रीवास्तव (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78535ए मिहिर बी पानसुरीया (एएससी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 34 (चौतीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 120 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 12 दिसम्बर 2015 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94,

यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 14 दिसम्बर 2014 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

आई एम ए संख्या	नाम	आई सी संख्या	आर्म / सर्विस
टी/7765	ध्रुव वर्मा	81418 ए	ईएमई
टी/7774	विवेक चौधरी	81424 एन	आर्टी
टी/7737	मन्दीप सिंह	81427 एफ	आर्टी
टी/7730	अभिषेक शर्मा	81431 के	आर्टी
टी/7781	दीपक यादव	81433 पी	एओसी
टी/7784	जोशी रोहित केशव	81434 एक्स	सिगनल्स
टी/7734	संयम शर्मा	81435 ए	इन्फैन्ट्री
टी/7710	नलिन थापा	81441 एन	ईएमई
टी/7728	अरुन ठाकुर	81445 के	इंजीनियर्स
टी/7779	गौरव श्रीवास्तव	81448 एक्स	इन्फैन्ट्री
टी/7747	राकेश कुमार मिश्रा	81450 पी	इंजीनियर्स
टी/7748	सौरव शर्मा	81451 एक्स	इन्फैन्ट्री
टी/7716	आकाश चौधरी	81452 ए	इंजीनियर्स
टी/7718	शिजु टी नैना	81456 डब्ल्यू	एएडी
टी/7773	राजेश कुमार	81459 के	एएससी
टी/7795	नसीब सिंह गिल	81461 एफ	एएससी
टी/7749	हरिन्दर सिंह	81466 ए	आर्टी
टी/7786	सी आर विजय कुमार	81467 एच	इन्फैन्ट्री
टी/7708	फिन्नी पी एण्ड्रूस	81468 एल	इन्फैन्ट्री
टी/7753	लवीश मुद्गल	81471 एल	आर्टी
टी/7754	आदित्य सिंह	81473 डब्ल्यू	इंजीनियर्स
टी/7711	चेतन एम	81475 एफ	ईएमई
टी/7775	अल्लामश सिद्दीकी	81478 पी	ईएमई
टी/7745	श्रवण दूबे	81479 एक्स	सिगनल्स
टी/7778	योगेन शर्मा	81480 एम	सिगनल्स
टी/7744	नितीश गौर	81481 पी	एएडी
टी/7719	निखिल कुरूप	81482 एक्स	सिगनल्स
टी/7721	हिमांशु रूसिया	81483 ए	आर्टी
टी/7746	मनदीप कुमार	81484 एच	सिगनल्स
टी/7709	राकेश आर मेनोन	81487 डब्ल्यू	आर्टी
टी/7767	सचिन सुहाग	81491 वाई	मैक इनफैन्टरी
टी/7780	नयन दुबे	81492 एफ	ईएमई
टी/7764	चंद्र प्रकाश	81493 के	इंजीनियर्स
टी/7771	देवेन्द्र सिंह	81497 ए	इन्फैन्ट्री

निम्नलिखित 09(नौ)जैण्टलमैन कैडेट्स को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले0 के पद पर 12 दिसम्बर 2015 (पूर्वाह्न) से स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई एम ए संख्या	नाम	आई सी संख्या	आर्म / सर्विस
टी/7743	भारत राणा	81416 पी	एईसी
टी/7768	अर्जुन मैनन	81430 एफ	एईसी

टी/7724	ऐलबिन अग्रस्टीन	81432	एम	आईसी
टी/7720	अखिल विश्वनाथ पी	81439	डब्ल्यू	आईसी
टी/7726	बी रमेश कुमारपुरगू	81449	ए	आईसी
टी/7722	रूपेश जी	81457	वाई	आईसी
टी/7762	अरिहन्त जोशी	81460	वाई	आईसी
टी/7742	जगतार सिंह	81477	एम	आईसी
टी/7766	सतीशा डि	81490	डब्ल्यू	आईसी

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

1 निम्नलिखित 34 (चौतीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 120 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या		आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
टी/7708	फिन्नी पी एण्ड्रूस	48434	एक्स	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7709	राकेश आर मेनोन	48435	ए	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7710	नलिन थापा	48436	एच	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7711	चेतन एम	48437	एल	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी/7716	आकाश चौधुरी	48442	डब्ल्यू	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी/7718	शिजु टी नैनान	48444	एफ	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7719	निखिल कुरूप	48445	के	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7721	हिमांशु रूसिया	48446	एम	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7728	अरुन ठाकुर	48450	पी	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी/7730	अभिषेक शर्मा	48452	ए	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7734	संयम शर्मा	48456	डब्ल्यू	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7737	मन्दीप सिंह	48459	के	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7744	नितिश गौर	48463	एम	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7745	श्रवण दूबे	48464	पी	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7746	मनदीप कुमार	48465	एक्स	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7747	राकेश कुमार मिश्रा	48466	ए	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी/7748	सौरव शर्मा	48467	एच	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7749	हरिन्दर सिंह	48468	एल	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7753	लवीश मुद्गल	48472	एन	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7754	आदित्य सिंह	48473	डब्ल्यू	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी/7764	चंद्र प्रकाश	48482	एक्स	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी/7765	ध्रुव वर्मा	48483	ए	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी/7767	सचिन सुहाग	48484	एच	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी/7771	देवेन्द्र सिंह	48487	डब्ल्यू	ईएमई	13 जनवरी 2015

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या		आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
टी / 7773	राजेश कुमार	48489	एफ	एएससी	13 जनवरी 2015
टी / 7774	विवेक चौधरी	48490	डब्ल्यू	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी / 7775	अल्लामश सिद्दीकी	48491	वाई	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी / 7778	योगेन शर्मा	48494	एम	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी / 7779	गौरव श्रीवास्तव	48495	पी	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी / 7780	नयन दुबे	48496	एक्स	इंजीनियर्स	13 जनवरी 2015
टी / 7781	दीपक यादव	48497	ए	ईएमई	13 जनवरी 2015
टी / 7784	जोशी रोहित केशव	48500	पी	सिगनल्स	13 जनवरी 2015
टी / 7786	सीआर विजय कुमार	48502	ए	इंजीनियर्स	14 जनवरी 2015
टी / 7795	नसीब सिंह गिल	48511	एफ	एएससी	26 जनवरी 2015

2. जैण्टलमैन कैडेट्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है ।

अभिषेक तिवारी
मेजर
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 239, दिनांक 17 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित पद सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

नियमित सेना
(अल्प सेवा आयोग)
2/लै0 के पद पर

1. ले0 कर्नल सन्तोष जे वरगीज (एस एस-35804एन)सिगनल्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-56 पाठ्यक्रम के थे तथा जिनको 2/लै0 के पद पर विशेष सेनानुदेश 11/एस/64, यथासंशोधित, के अन्तर्गत दिनांक 21 अगस्त 93 से अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया गया था। जिनका नाम भारत के राजपत्र में 07 मई 94 को प्रकाशित हुआ था। सशस्त्र सेना अधिकरण, चैन्नई ने सन्तोष जे वरगीज (एस एस-35804एन) सिगनल्स को दो साल की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत प्रदान की है। पूर्व दिनांकित वरिष्ठता प्रदान करने के बाद इनकी 2/लै0 में वरिष्ठता दिनांक 25 अगस्त 91 से दी जाती है।

2. यह भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 07 मई 1994 को प्रकाशित अधिसूचना जो एस एस-35804एन 2/लै0 सन्तोष जे वरगीज, सिगनल्स के सन्दर्भ में था, को निरस्त करता है।

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
ए एम एस 8बी

राष्ट्रीय कैडेट कोर/ एम एस (डी)

सं. 240, दिनांक 18 अक्टूबर 2016—नीचे दिए गए कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है :-

कुलपति का नाम	निदेशालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति पद पर नियुक्ति की तारीख
प्रो0 (डॉ0) निगम दवे निदेशक एवं अध्यक्ष	गुजरात	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर	01.07.2015
डॉ0 दक्षेस रसिकलाल ठाकर कुलपति	गुजरात	वीर नर्मदा साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	23.07.2014

प्रो० जी.सी.आर जायसवाल कुलपति	यू.पी.	डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	04.03.2014
प्रो० ,डॉ० आर.पी. सिंह कुलपति	राजस्थान	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	05.05.2015
प्रो० डॉ० एस एस सारंगदेवोत कुलपति	राजस्थान	जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर	03.06.2016

ए के पान्डेय
ब्रिगे
उप महानिदेशक (एम एस)

सेना शाखा

सं. 241, दिनांक 19 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर से ले कर्नल

पर्सनल सं०	नाम	आर्म
आई सी— 61641	विकास सुहाग	ए सी

—08 दिसम्बर 2014—

पर्सनल सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
आई सी 64969	युधवीर सिसोदिया	ई एम ई	06 नवम्बर 2012

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन(मैन)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46841	अनमोल कपूर	इंजीनियर्स	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46860	अमित कुमार शर्मा	इंजीनियर्स	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46881	धवाला वी साई श्रीवात्सा	इंजीनियर्स	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46888	शैख सोहैल	सिग्नल्स	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46917	उदित मल्होत्रा	ए सी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46932	नीरज कुमार	ए ओ सी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46959	रोहित सिंह	ई एम ई	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46986	हेमंत एस पनडिथ	ए एस सी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
47709	ज्योति प्रकाश मिश्रा	इन्फैन्ट्री	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47732	आशीष प्रसाद श्रीवास्तव	ई एम ई	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47750	पियुष कुमार राठौर	सिग्नल्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47945	एस विघ्नेश	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47946	मनोज एल	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47950	गोतमजी कानदरु	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47952	प्रियांक कोसलिया	सिग्नलस	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47954	ज्ञाना सेकरन पी	आर्टी	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47956	सिबीन थोमस	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47959	सुन्दरराजन बी	आर्टी	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47960	अभिषेक शर्मा	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47961	निखिल मनमार	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47962	नायर राहुल शशिधरन	आर्टी	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47964	दीपक कुमार	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47965	आकाश ठाकुर	एविशन	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47966	प्रियव्रत सॉगवान	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47969	परमेश सिंह	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47971	अथित हेगडे	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47973	परेरा विनित जॉन	सिग्नलस	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47974	आदित्य प्रताप सिंह	सिग्नलस	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47978	जगतारन सिंह	इन्ट	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47979	अरुण कुमार सिंह	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47981	पुरुषोत्तम शर्मा	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47984	हरमनदीप सिंह मनकू	एविशन	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47985	अरुण के एच	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47988	अंकित शर्मा	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47989	दीपु के	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47990	सुशील ठाकुर	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47992	दीप गुप्ता	सिग्नलस	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47995	अनूप सिंह ठाकुर	ए एस सी	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48000	अमन कौशिक	ए ओ सी	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48001	शक्ति कुमार आर	इन्फैन्ट्री	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48004	जी बालकीर्ति	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी. 42(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47700	विनय कुमार यादव	इंजीनियर्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47716	नम्मलम गुणवंथ राव	इंजीनियर्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47753	कुनाल सिंह कश्यप	इंजीनियर्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47755	मनोरंजन बरुआ	इंजीनियर्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47759	रोहन हान्डा	ई एम ई	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47762	सुभम सचदेवा	सिग्नल्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47768	अंकुश नेगी	आर्टी	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 41(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47273	राहिल कुमार	सिग्नलस	17 मार्च 13	एस.एस.सी. 40(टी)	17 अप्रैल 13	17 अप्रैल 15
47297	पोरसेलवान एस	इंट	17 मार्च 13	एस.एस.सी. 40(टी)	17 अप्रैल 13	17 अप्रैल 15
47356	कार्तिक वी	ए एस सी	17 मार्च 13	एस.एस.सी. 40(टी)	17 अप्रैल 13	17 अप्रैल 15
46847	चित्रांश गोयल	आर्टी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46858	तनूज कुमार	इंजीनियर्स	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46862	दीपक शर्मा	इन्फैन्ट्री	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46870	वदनाला संदीप	इन्फैन्ट्री	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46882	रुद्र प्रताप सिंह परमार	आर्टी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46902	संजीव कुमार	इन्फैन्ट्री	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46904	गौरव उपाध्याय	ए एस सी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46911	नवीण कुमार	सिग्नल	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46915	सुखविन्दर सिंह	आर्टी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46941	गुरसिमरत सिंह	ए एस सी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46948	तुषार शनवाल	सिग्नल	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46962	उदयवीर सिंह राठौर	मैक इन्फैन्ट्री	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46963	साजिल के वी	इंजीनियर्स	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46965	सुलभ सेठी	इन्फैन्ट्री	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46966	कुलदीप शर्मा	आर्टी	16 सितम्बर 12	एस.एस.सी. 39(टी)	16 अक्टूबर 12	16 अक्टूबर 14
46656	यंगलादासु राजेश	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46659	अर्जुन कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46662	जयंत भास्कर पंत	ए सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46663	वीरेन्द्र सिंह धाकड	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46665	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46666	संदीप सिंह आनंद	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46668	कावेरीथिलांगेस पी के	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46669	जोन राल्फ वॉबोक् नोगरंग	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46670	कनिष्क सेठी	मैक इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46671	मनप्रीत सिंह ग्रेवाल	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46672	प्रेरक नैय्यर	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46673	राहुल राय	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46675	रजत प्रीत सिंह	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46676	जोशी निरंजन रविन्द्र	सिग्नल्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46677	मनु थोमस	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46678	गोविन्द कुमार भट्ट	ए सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46680	हेरमोन हौह थंग हलून	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46681	महक मैहता	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46682	सतीस कुमार मिश्रा	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46684	जतिन रावत	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46685	नकुल वर्मा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46686	हनवंत सिंह चारण	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46687	पंकज चौहान	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46688	आकाश सिंह	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46690	बोध बहादुर गुरुंग	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46693	कमल गिरि गोस्वामी	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46694	कोडीलकर अनिश शाम	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46695	प्रकाश कुमार	मेक इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46696	पुनीत	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46698	रजत पटानिया	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46700	नवीन भंडारी	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46701	दुर्गा प्रसाद चावला	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46704	कौशलैन्द्र केशव करण सिंह	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46705	जिनो एफ डोसन	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46706	मैरनाम लुवांग्बा मैतै	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46707	राहुल जीनगर	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46708	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46709	अक्षय शर्मा	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46710	गौरव गोस्वामी	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46711	विजय सिंह पंवर	इंट	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46712	नायर तेजस प्रकाश	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46713	विष्वदीप दहिया	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46714	नितेश शर्मा	मेक इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46715	इकबालजीत सिंह सिंहोता	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46716	चव हर्ष वर्धन	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46717	अरविन्द कुमार	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46718	लाईसरम केनेडी सिंह	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46719	पुरुषोत्तम कुमार हीरा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46720	धीरेन्द्र कुमार राव	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46721	खाकरे निरंजन अशोक	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46724	ए राजेश कुमार	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46725	पुक्लांबर प्रहलाद पत्तार	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46726	जाधव स्मित मधुकर	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46728	भानु प्रताप सिंह ढडवाल	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46729	कोनसौम जूजा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46730	सचिन कुमार	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46732	नवीन शर्मा	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46733	राहुल सिंह	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46734	सहयोग छेत्री	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46736	अभिनव देथा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46738	बलविन्द्र सैनी	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46739	कच्चापिल्ली जोन अब्राहम	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46741	केवारे सचिन पंढरीनाथ	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46742	कनिष्क सील	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46743	विवियन वर्गीस	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46744	मनीष जरान्डे	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46745	मुकेश सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46746	राजीव कुमार चौधरी	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46748	पि सरावना नायडु	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46750	आषीश चन्द	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46751	रोहित गर्ग	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46755	अभिमन्यु सिंह राणावत	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46756	आयूष मिश्रा	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46757	शिवेश्वर यादव	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46759	रचित शर्मा	ए सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46761	धीरज सिंह तंवर	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46762	राकेश नेहरा	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46763	बृजेश कुमार सिंह	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46764	राहुल दिलेर	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46765	प्रिंस जॉय फर्नांडिस	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46766	अविषेक कुमार	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46767	भुपेन्द्र माल्हाण	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46769	वरुण कुमार श्रीवास्तवा	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46770	चिराग यादव	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46771	अभिषेक कौशिक	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46772	आकाश मोर	मेक इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46773	एम लॉग्यु	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46774	अनुग्रहा आइसेक सिंघा	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46776	सतेन्द्र सिंह बुंदेला	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46777	दयानंद कुमार यादव	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46778	पंकज कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46779	सरताज सिंह	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46780	अभिषेक घोष	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46781	जसमीत सिंह भाटिया	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46782	वेंकटरमन अक्षय	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46783	कुईरेंग रगुई	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46785	मसुरेकर जयदीप प्रदीप	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46786	गिरीश अरोडा	ए सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46787	डैनियल राव	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46788	पुष्पेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46791	गुरविन्दर सिंह	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46792	प्रेमसुख गोडारा	मैक इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46794	वरुण पठानिया	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46795	मयंक यादव	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46796	सूरज कुमार	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46797	धन्नजय सिंह राणा	ए सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46798	अंचल विष्णामित्र	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46799	जयन्त कुमार दुबे	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46803	रोहित कुमार ग्रेवाल	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46804	प्रान्जल भाण्डा	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46805	नेत्रपाल सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46806	प्रदीप पाटील	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46807	देवेन्द्र कुमार राय	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46808	रवि मथाई	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46809	विवेक कुमार तिवारी	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46810	किरण एन	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46811	अंकित कश्यप	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46812	मनीष शर्मा	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46813	डी वी एस नरेन्द्र	सिग्नल्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46814	जौहरी मयंक दिपक	आर्टी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46815	पेड्डिडना वेंकट रोहित	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46817	मेयारा मयूर	मेक इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46818	कमलेश राथ	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46819	जय सिंह	इन्फैन्ट्री	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी. 96(एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीषन(एस.एस.सी.डब्ल्यू.)

ले. से कप्तान

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46231	कंचन धरनिया	ए एस सी	16 मार्च 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 09 (एन टी)	16 अक्टूबर 13	16 अक्टूबर 15
46658	हाउबम बेला देवी	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46660	किरणदीप कौर	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46661	शेट्टी अश्विनी सदाशिव	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46664	भारती सनसनवाल	एविएशन	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46667	वंदना तेजी	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46674	अपराजिता शर्मा	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46679	तेजस्विनी वी	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46683	शुभनीत इन्दरजीत कौर	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46689	खोबरे प्रियंका प्रकाश	इन्ट	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46691	अस्मिता छेत्री	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46692	मिनी एम	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46697	गगनदीप कौर	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46699	गायत्री मिश्रा	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46702	नीलम धीमान	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46703	प्रिया पायल	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46722	प्रतिमा बी सुर्यावंशी	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46727	सुनिता	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46731	वर्गीस सुसन जॉय	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46735	पिकी	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46737	दीप्ती जदली	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46740	मोनिका मिश्रा	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46747	संध्या चतुर्वेदी	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46749	अर्चना सिंह	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्ल्यू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16

एस.एस.सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
46752	नेहा सिंगरोहा	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46753	मनीषा राना	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46754	नीतिका गोगना	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46758	पाराशरे तेजल विजय	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46768	एम ऐश्वर्या	ए ए डी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46775	अवन्तिका शर्मा	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46784	गीतिका चौधरी	सिग्नल	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46789	नम्रता दास	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46790	यामिनी यदुवंशी	ए एस सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46793	आर सुभाषिनी	ई एम ई	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46800	डिंपल मेरी फ्रान्सीस	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46801	किरण बाला	इंजीनियर्स	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46802	चतुर्वेदी पयोधी नरेश	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
46816	ज्योतिका गुरुंग	ए ओ सी	14 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू. 10 (एन टी)	14 अप्रैल 14	14 अप्रैल 16
47704	अमृता यादव	ए एस सी	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू.—12(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47727	छवि गुप्ता	सिग्नल्स	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू.—12(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47729	शिम्पी सिन्हा	ई एम ई	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू.—12(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47764	मानसवी श्रीवास्तव	ई एम ई	15 सितम्बर 13	एस.एस.सी.डब्लू.—12(टी)	15 अक्टूबर 13	15 अक्टूबर 15
47951	मालविका शर्मा	सिग्नल्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47953	ज्योति राठी	सिग्नल्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47958	रमनदीप कौर	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47968	अमरीन मलिक	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47975	नवनीत संधू	सिग्नल्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47982	शिखा सुरभि	सिग्नल्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47983	अर्चना पाण्डेय	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47986	एस अर्चना	सिग्नल्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47991	शाएला रईस	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47994	पूजा रानी खटेई	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47996	महिमा	सिग्नल्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
47999	शुभ्रा मिश्रा	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48005	एस ऐश्वर्या	इंजीनियर्स	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16
48008	सुधा वि	ई एम ई	16 मार्च 14	एस.एस.सी.डब्लू.—13(टी)	16 अप्रैल 14	16 अप्रैल 16

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी

सेना शाखा

सं. 242, दिनांक 20 अक्तूबर 2016—

शुद्धि पत्र

नियमित सेना

मेजर से ले0 कर्नल

भारत के राजपत्र भाग-1, अनुभाग - IV में दिनांक 08 सितम्बर 2012 को प्रकाशित शीर्षक "नियमित सेना, स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक "मेजर से ले0 कर्नल" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित अधिकारी का नाम निरस्त किया जाता है :-

एस एस-38573 युधवीर सिसोदिया, ई एम ई

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8 सी

सेना शाखा

सं. 243, दिनांक 21 अक्तूबर 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 12 जून 2004 से)

(सेना शाखा)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना, भाग 1 अनुभाग 4 के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 09 अप्रैल 2005 को 114 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	.	हर्षवर्धन सिंह	आई सी 63845एम	इन्फैन्ट्री
पटे	.	हर्षवर्धन सिंह	आई सी 63845एन	इन्फैन्ट्री

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 29 नवम्बर 2014 को 133 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है

के लिए	—	रामसुख डुकिया	आई सी-78327एल	ईएमई
पटे	—	रामसुख डुकिया	आई सी-78327एल	ईएमई

अभिषेक तिवारी
मेजर
एमएस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th November 2016

ARMY BRANCH

No. 238 dated 14th October 2016—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(TO BE LTS W.E.F 12 DEC 2015)

The undermentioned 292 Gentlemen Cadets of 137 Regular Course (58 DE, 177 Ex NDA and 57 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 12 Dec 2015 except One GCs, GC N/45906 (IC No. 81043M) Ripudaman Singh Rathore was withheld as he was LMCs at the time of POP. However, GC N/45906 (IC No. 81043M) Ripudaman Singh Rathore is granted permanent commission wef 30 Dec 2015 after becoming S1H1A1P1E1, under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC NO		NAME	Arm/Service
80903	H	RAVI SOMANAGOUDA MULIMANI	INF
80904	L	LALIT THAPLIYAL	INF
80905	N	RAVINDRA YADAV	INF
80906	W	AGRIM SHARMA	AC
80908	F	AMIT KUMAR BHASKAR	ARTY
80909	K	JAG PARVESH	EME
80911	F	DEEPAK SHARMA	INF
80912	K	SHINJAN CHAKRABORTY	SIGS
80913	M	AHUJA PRATIK MAHENDRA	INF
80914	P	AAKASH BHARDWAJ	ENGRS
80915	X	RAM NATH YADAV	AOC
80916	A	RUSHIL PUNJ	MECH
80917	H	NIDHIL MOHAN	ASC
80918	L	SANTOSHKUMAR SOURAPALLI	AAD
80919	N	KAPIL DHANKHAR	INF
80920	H	ALOK NEGI	ARTY
80921	L	ANUBHAV DALAL	ASC
80922	N	KARAN THAPA	ARTY
80923	W	TUSHAR SHARMA	MECH
80925	F	PARDEEP SINGH THAKUR	INF
80927	M	RISHIKESH R PATIL	ARTY
80928	P	AMIT DEO	AOC
80929	X	ANUPAM AGARWAL	ARTY
80930	M	VAIBHAV KARNAWAT	AC
80931	P	S GUBERA GANDHI RAJ	INF

IC NO		NAME	Arm/Service
80932	X	SUDHIR KUMAR YADAV	INF
80933	A	DEEPAK KUMAR	INF
80934	H	HARDEEP SINGH BHELA	AC
80935	L	VEER SINGH YADAV	ARTY
80936	N	TEJENDRA SINGH	ARTY
80937	W	NAIR ANIRUDH SURESH	INF
80938	Y	MOHIT MAYANK	INF
80940	W	E CHIRANJEEVI	ASC
80941	Y	BALBEER KUMAR SARAN	ENGRS
80942	F	VAIBHAV MISHRA	SIGS
80943	K	VIKRAM SINGH	INF
80944	M	ASHISH SINGH	INF
80945	P	ISHANK SHARMA	ARTY
80946	X	HARSHANEEL DIGAMBAR CHORE	AVN
80947	A	SHAGUN SHARMA	ARTY
80948	H	SUDHIR SHARMA	ARTY
80949	L	MOHIT MALIK	AOC
80951	H	ANIL KUMAR	ENGRS
80952	L	BALWANT SINGH BHANDARI	ARTY
80953	N	VIKRAM SINGH KHARB	AOC
80955	Y	ATIN BISHT	AVN
80956	F	JITENDRA SINGH	INF
80957	K	ANIL KUMAR	AAD
80958	M	AMITABH PREETAM	INF
80959	P	SUHAS NAMDEO WAGH	ARTY
80960	K	ABHINENDRA KUMAR SINGH	ASC
80963	X	AMRITESH KUMAR	EME
80964	A	RAHUL REDDY	EME
80966	L	NIKHIL KOTWAL	ASC
80967	N	ADITYA CHOUDHARY	INT
80968	W	SASHANK KUMAR SINGH	ARTY
80970	N	MANOJ KUMAR TIWARI	AC
80971	W	VINOD KUMAR	ARTY
80974	K	ROHIT PANDEY	INF
80975	M	BHANU PRATAP SINGH	AOC
80976	P	PANKAJ BHATT	EME

IC NO		NAME	Arm/Service
80977	X	AMANDEEP SINGH	INF
80978	A	DEEPAK RATHEE	INF
80981	A	SHIV KUMAR PRADHAN	AAD
80982	H	AVNISH KUMAR SINGH	ARTY
80983	L	SHASHI KUMAR	ARTY
80984	N	UPINDER SINGH	ASC
80985	W	BHANU PRATAP SINGH CHAUHAN	AC
80986	Y	HARNIMAR SINGH BEHL	MECH
80988	K	AKSHAY	ENGRS
80989	M	BHASKAR SINGH	INF
80990	F	HARISH MOHAN	AOC
80991	K	ADISH KHAJURIA	SIGS
80994	X	HIMANSHU CHOUDHARY	ARTY
80995	A	ARUN KUMAR S	ARTY
80996	H	PARMANDER YADAV	MECH
80998	N	ANOOP M S	AAD
80999	W	AMAN	INF
81000	X	AMIT TALWARA	INF
81001	A	MOHAMMAD IMDAD ALI	EME
81002	H	LADACHE YOGESH GIDU	ENGRS
81003	L	YASH SHARMA	INF
81004	N	SHITANSHU SHEKHAR	ARTY
81005	W	MOHAMMAD ASHRAF KHAN	INF
81008	K	MAYANK SHUBHAM	AC
81009	M	DEEPAK KAUSHIK	AC
81010	F	VAISHNAV BS	ARTY
81011	K	CR KARTHICK	AAD
81012	M	NIPUN KHAJURIA	AAD
81014	X	KSHITIJ KUMAR	ENGRS
81015	A	SINGH KUNAL HARINARAYAN	INT
81016	H	CHOUGULE ARUN ASHOK	ARTY
81017	L	PRATHYUSH P	INF
81018	N	BAAZHANG LIMBOO	INF
81020	L	BASANT KUMAR TOMAR	INF
81021	N	VAIBHAV KATARIA	INF
81022	W	NIKHIL SHUKLA	EME

IC NO		NAME	Arm/Service
81023	Y	HOLKHOLEN KHONGSAI	INF
81025	K	M.V.N.V SURYA TEJA	ASC
81027	P	MIDHUN MADHUSOODANAN	AAD
81028	X	VICKY BHANDARI	AOC
81029	A	HIMANSHU SHARMA	ARTY
81030	P	BHARATH MURALY	ARTY
81031	X	PARTH SAINI	INF
81032	A	DEVESH SHARMA	ARTY
81033	H	PRANAB M	AOC
81035	N	MANASVI SHUKLA	ARTY
81036	W	SUJITH J S	INF
81037	Y	SAURABH KUMAR DUBEY	SIGS
81039	K	DHRUV GUSAIN	INF
81040	Y	SHIVAM PANDEY	ARTY
81041	F	MOHIT KUMAR	AVN
81042	K	ARPIT KUMAR UPADHYAY	MECH
81043	M	RIPUDAMAN SINGH RATHORE	EME
81045	X	PAWAS TIWARI	INF
81046	A	PRADEEP PUNDLIK BANNUR	INF
81047	H	SHISHPAL SINGH	AOC
81049	N	CHIRAG	ARTY
81050	H	VIKASH DHAKA	INF
81051	L	GOVIND SINGH BAGDWAL	ASC
81053	W	SOOD ANIL	ASC
81054	Y	VIKKY KUSHWAHA	AC
81055	F	JAG MOHAN	ASC
81056	K	AJAY SEHRAWAT	ARTY
81057	M	RAVI RANJAN KUMAR SINGH	SIGS
81058	P	DANIEL CHABUNGBAM	INF
81059	X	SAHIL AHUJA	ARTY
81060	M	SABALE GANESH CHANDRAKANT	MECH
81061	P	RAVI PRATAP CHAND	INF
81062	X	AMOM BONITHOIBA	ARTY
81064	H	AKHIL KUMAR	AOC
81065	L	NEERAJ LAMBA	ASC
81066	N	PV VISWANATHAN	ARTY

IC NO		NAME	Arm/Service
81067	W	SHANTANU NIRANJAN JOSHI	INF
81069	F	SANDEEP KUMAR	INF
81070	W	ROHIT KUMAR SWAMI	INF
81071	Y	MD AKRAM	INF
81072	F	NIKHIL BISHNOI	INF
81074	M	DEEPAK DEVLAL	AAD
81075	P	YUGAL KISHORE	ARTY
81076	X	SHAHROKH S ALI	ARTY
81077	A	SHIVANAND BASAPPA PATYALI	ARTY
81078	H	SANJEEV KUMAR RANA	INF
81079	L	RACHIT KOTS	INF
81080	A	AKHIL TYAGI	AAD
81081	H	RAMAN PANWAR	INF
81082	L	ROHIT SHARMA	ARTY
81083	N	AVIJIT SARKAR	MECH
81084	W	DHIRAJ ACHARYA	ARTY
81086	F	PRATEEK SINGH JADAUN	AVN
81087	K	KUNAL SAURAV	INF
81088	M	NARENDER KUMAR	AOC
81091	M	BHARAT PRATAP SINGH	ASC
81094	A	ASHISH RANJAN	EME
81095	H	SACHIN AGRAWAL	ARTY
81096	L	ABHIMANYU SINGH	ENGRS
81097	N	SURAJ FARTYAL	ARTY
81098	W	ARIJIT BOSE	SIGS
81100	H	SOMANATH HINGAMIRE	INF
81101	L	TIWARI AMIT KUMAR OMKARNATH	ASC
81103	W	KIRAN SURESH CHAVAN	INF
81104	Y	KUSH BUDHWAR	AC
81105	F	SUPREET SINGH HEERA	ARTY
81106	K	GAVASKAR A	AOC
81107	M	JAGDEEP DHANKAR	EME
81108	P	MANJINDER SINGH	AC
81111	P	PANKAJ YADAV	ASC
81113	A	ANKUSH SHARMA	INF
81116	N	VARUN OAK	AVN

IC NO		NAME	Arm/Service
81119	F	M DILIP KUMAR	AOC
81120	W	AJAY KUMAR	ENGRS
81121	Y	SHANKUL SETHI	ASC
81122	F	STHITA PRAGYAN ROUT	AAD
81123	K	ARUN SINGH KAIRA	INF
81124	M	ABHISHEK SHUKLA	INF
81125	P	SANDEEP KARKI	INF
81126	X	DESHPANDE AMEYA MILIND	INF
81127	A	YUVRAJ SINGH	ARTY
81129	L	MRIDUL AGARWAL	AAD
81131	H	GIRI BABU V	EME
81132	L	GAURAV DUKARE	INF
81135	Y	SOVIN SONAM	INT
81136	F	PRASHANT NAUNI	ENGRS
81138	M	ANUBHAW MISHRA	MECH
81139	P	SARTHAK NIGAM	AAD
81140	K	RAVINDER SINGH RAUTELA	ARTY
81141	M	ASHISH MEHTA	AC
81142	P	SUNNY SHARMA	INF
81143	X	ABHISHEK KUMAR	ASC
81144	A	KULDEEP SINGH RATHORE	ARTY
81146	L	MAIBAM DIPU SINGH	INF
81147	N	CHAVAN ROHAN SUDHAKAR	ARTY
81148	W	CHETAN MATHUR	ARTY
81151	W	SURENDRA KARKI	ASC
81152	Y	MANOJ KUMAR BHADOO	AC
81153	F	BHISMA SAINI	INF
81154	K	SASHI KUMAR	INF
81155	M	SUDHIR YADAV	AAD
81157	X	LAIPHRAKPAM MARSHAL SINGH	INF
81158	A	KRISHANKANT	INF
81159	H	JITENDRA SINGH RATHORE	INF
81161	A	ANUDEEP SONI	AAD
81162	H	DAWA TAMANG	INF
81163	L	ASWIN VIJAYA KUMAR	INF
81164	N	SANTOSH KUMAR SINGH	ARTY

IC NO		NAME	Arm/Service
81165	W	JYOTIRMOY BORO	ASC
81167	F	BIJENDER KUMAR CHAHAR	ARTY
81168	K	PIYUSH BHUTANI	AC
81169	M	RANJIT SINGH	MECH
81170	F	DEVINDER SINGH	INF
81171	K	THANGCHA NEISHEL	INF
81172	M	PATIL RAHUL REDDY	INF
81176	H	PRANAYJIT SINGH	EME
81177	L	ARPIT GUPTA	ARTY
81178	N	PUSHPENDRA KUMAR SINGH	INF
81179	W	MAYANK CHAWDA	INT
81180	L	DELEX NAMGYAL	INF
81183	Y	KARTIK YADAV	AAD
81185	K	TRIPATPREET SINGH	ASC
81186	M	MOHD TAFZZUL	ARTY
81189	A	GAGANJEET SINGH DHINDSA	ARTY
81190	P	AVINASH NEGI	EME
81191	X	MANISH KUMAR YADAV	ARTY
81192	A	KAMAL SHARMA	ENGRS
81193	H	RAHUL SHARMA	ARTY
81194	L	AKHILESH KUMAR	AOC
81195	N	VISHAL SHARMA	INF
81196	W	ABHISHEK	SIGS
81197	Y	DIPANKAR NATH	INF
81198	F	MOHIT YADAV	ASC
81199	K	ROHIT SHARMA	INF
81200	N	MOHAN SINGH DABAS	AC
81201	W	U SURANDASH SINGH	INT
81202	Y	BHAGI KRISHNA KUMAR	AC
81203	F	ROHIT KUMAR SINGH	ARTY
81204	K	ADITYA YADAV	INF
81205	M	SHUVADEEP PAUL	ARTY
81206	P	RAJENDRA KUMAR SINGH	ASC
81207	X	PRIYHERSH	INF
81208	A	PARKHE GAURISH NARAYAN	ARTY
81211	A	VIJAY	AVN

IC NO		NAME	Arm/Service
81212	H	SHAKTI PRATAP SINGH KANWAR	INF
81213	L	ASHOK CHOUDHARY	AAD
81215	W	KARAN YADAV	ARTY
81216	Y	SACHIN PANWAR	INF
81217	F	ARUN YADAV	AC
81219	M	VIKAS CHANDRA	EME
81220	F	GAURAV KHAJURIA	MECH
81222	M	VISHVENDRA KUMAR GILL	ARTY
81223	P	ARUN VERMA	INF
81224	X	ASHOK SINGH PARIHAR	INF
81225	A	PARTEEK LAKRA	INF
81226	H	DHANVEER SINGH	AC
81227	L	JOHN PAL SINGH	AC
81228	N	YASIR AKHTAR	ASC
81229	W	NUKUL SINGH	ENGRS
81230	L	NOVNEET	ARTY
81231	N	AMAN	INF
81232	W	RAHUL KUMAR	ARTY
81234	F	ABHINAV VASANIYA	ARTY
81235	K	ARUN M NAIR	AVN
81237	P	RAJINDER SINGH	INF
81239	A	SACHIN KUMAR	INF
81242	A	ASHWIN S PALLIPARAMBIL	ARTY
81243	H	PRAKHAR PRATAP SINGH	INF
81244	L	DEEPAK GOSWAMI	EME
81245	N	DEVANSH BHUTANI	ARTY
81250	Y	ESHAN RATHORE	INF
81251	F	PARAMJEET DAHIYA	AOC
81252	K	DAKSH DHANKHAR	AC
81255	X	NITIN SHARMA	ARTY
81256	A	ABHISHEK KUMAR	ARTY
81257	H	EMIL GEORGE SIMON	AAD
81258	L	ASHISH DAHIYA	ENGRS
81259	N	VIVEK RATHEE	MECH
81260	H	ANSHAD A A	INF
81261	L	SAURABH SINGH	INF

IC NO		NAME	Arm/Service
81262	N	KANWARDEEP SINGH	MECH
81263	W	ABHISHEK SHARMA	INF
81265	F	JUDY TOM MATHEW	EME
81266	K	CHANDRADEEP KUMAR	ARTY
81267	M	SAURAV KUMAR	INF
81269	X	RAHUL SINGH YADAV	ARTY
81271	P	RAGHVENDRA PRATAP SINGH RAGHAV	ASC
81272	X	YOGENDER MALIK	ASC
81274	H	VARUN YADAV	INF
81275	L	RAHUL ROY	ARTY
81276	N	SARVESH KUMAR RATHORE	AOC
81277	W	RISHABH DAMAN	ARTY
81279	F	DHRUV DHANKHAR	AOC
81280	W	DEEPAK BHARDWAJ	INT
81282	F	SOUMITRA SINGH	AOC

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(TO BE LTS W.E.F 13 JUN 2015)

The undermentioned Three Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

RAHUL MALIK (IC-80231F) ARTY seniority next below KS KRANTHI KIRAN RAO (IC-80230Y) INF COMMA VIVEK RANA (IC-80260W) ASC seniority next below NIKHIL KUMAR VERMA (IC-80259F) ARTY COMMA YUMLAM JOSE (IC-80414X) INF seniority next below NITESH KUMAR SINGH (IC-80413P) AVN whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(TO BE LTS W.E.F 13 DEC 2014)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

PRAVESH SINGH (IC-79949Y) INF seniority next below SHIVANAND G P (IC-79948W) ENGRS whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(TO BE LTS W.E.F 14 DEC 2013)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ABHIJEET SRIVASTAVA (IC-78536H) INF seniority next below MIHIR B PANSURIYA (IC-78535A) ASC whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 34 (thirty four) Gentleman Cadets of 120 Technical Graduates Course (TGC), whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 12 Dec 2015(F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC). They are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Dec 2014 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course:-

IMA No	NAME	IC No		ARM/ SERVICE
T/7765	DHRUV VERMA	81418	A	EME
T/7774	VIVEK CHAUDHARY	81424	N	ARTY
T/7737	MANDEEP SINGH	81427	F	ARTY
T/7730	ABHISHEK SHARMA	81431	K	ARTY
T/7781	DEEPAK YADAV	81433	P	AOC
T/7784	JOSHI ROHIT KESHAV	81434	X	SIGS
T/7734	SANYAM SHARMA	81435	A	INF
T/7710	NALEEN THAPA	81441	N	EME
T/7728	ARUN THAKUR	81445	K	ENGRS
T/7779	GAURAV SRIVASTAVA	81448	X	INF
T/7747	RAKESH KUMAR MISHRA	81450	P	ENGRS
T/7748	SAURAV SHARMA	81451	X	INF
T/7716	AAKASH CHAUDHURY	81452	A	ENGRS
T/7718	SHIJU T NINAN	81456	W	AAD
T/7773	RAJESH KUMAR	81459	K	ASC
T/7795	NASEEB SINGH GILL	81461	F	ASC
T/7749	HARINDER SINGH	81466	A	ARTY
T/7786	C R VIJAY KUMAR	81467	H	INF
T/7708	FINNY P ANDREWS	81468	L	INF
T/7753	LAVEESH MOUDGAL	81471	L	ARTY
T/7754	ADITYA SINGH	81473	W	ENGRS
T/7711	CHETHAN M	81475	F	EME
T/7775	ALTAMASH SIDDIQUI	81478	P	EME
T/7745	SARWAN DUBEY	81479	X	SIGS
T/7778	YOGEN SHARMA	81480	M	SIGS
T/7744	NITISH GAUR	81481	P	AAD
T/7719	NIKHIL KURUP	81482	X	SIGS
T/7721	HIMANSHU RUSIA	81483	A	ARTY
T/7746	MANDEEP KUMAR	81484	H	SIGS
T/7709	RAKESH R MENON	81487	W	ARTY

T/7767	SACHIN SUHAG	81491	Y	MECH
T/7780	NAYAN DUBEY	81492	F	EME
T/7764	CHANDRA PRAKASH	81493	K	ENGRS
T/7771	DEVINDER SINGH	81497	A	INF

The following 09 (nine) Gentleman Cadets are also granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 12 Dec 2015(F/N) under the terms and conditions of AI 105/61:-

IMA No	NAME	IC No		ARM/ SERVICE
T/7743	BHARAT RANA	81416	P	AEC
T/7768	ARJUN MENON	81430	F	AEC
T/7724	ALBIN AUGUSTINE	81432	M	AEC
T/7720	AKHIL VISWANATH P	81439	W	AEC
T/7726	B RAMESH KUMMARAPURUGU	81449	A	AEC
T/7722	RUPESH G	81457	Y	AEC
T/7762	ARIHANT JOSHI	81460	Y	AEC
T/7742	JAGTAR SINGH	81477	M	AEC
T/7766	SATHEESHA D	81490	W	AEC

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The under mentioned 34 (thirty four) Gentlemen Cadets of 120 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course.

IMA No	NAME	SS No		ARM/ SERVICE	Date of SSC (On Probation)
120 TECHNICAL GRADUATES COURSE					
T/7708	FINNY P ANDREWS	48434	X	EME	13-Jan-2015
T/7709	RAKESH R MENON	48435	A	EME	13-Jan-2015
T/7710	NALEEN THAPA	48436	H	EME	13-Jan-2015
T/7711	CHETHAN M	48437	L	ENGRS	13-Jan-2015
T/7716	AAKASH CHAUDHURY	48442	W	ENGRS	13-Jan-2015
T/7718	SHIJU T NINAN	48444	F	EME	13-Jan-2015
T/7719	NIKHIL KURUP	48445	K	SIGS	13-Jan-2015
T/7721	HIMANSHU RUSIA	48446	M	EME	13-Jan-2015
T/7728	ARUN THAKUR	48450	P	ENGRS	13-Jan-2015
T/7730	ABHISHEK SHARMA	48452	A	EME	13-Jan-2015
T/7734	SANYAM SHARMA	48456	W	SIGS	13-Jan-2015
T/7737	MANDEEP SINGH	48459	K	SIGS	13-Jan-2015
T/7744	NITISH GAUR	48463	M	SIGS	13-Jan-2015

T/7745	SARWAN DUBEY	48464	P	SIGS	13-Jan-2015
T/7746	MANDEEP KUMAR	48465	X	SIGS	13-Jan-2015
T/7747	RAKESH KUMAR MISHRA	48466	A	ENGRS	13-Jan-2015
T/7748	SAURAV SHARMA	48467	H	SIGS	13-Jan-2015
T/7749	HARINDER SINGH	48468	L	SIGS	13-Jan-2015
T/7753	LAVEESH MOUDGAL	48472	N	EME	13-Jan-2015
T/7754	ADITYA SINGH	48473	W	ENGRS	13-Jan-2015
T/7764	CHANDRA PRAKASH	48482	X	ENGRS	13-Jan-2015
T/7765	DHRUV VERMA	48483	A	EME	13-Jan-2015
T/7767	SACHIN SUHAG	48484	H	SIGS	13-Jan-2015
T/7771	DEVINDER SINGH	48487	W	EME	13-Jan-2015
T/7773	RAJESH KUMAR	48489	F	ASC	13-Jan-2015
T/7774	VIVEK CHAUDHARY	48490	W	EME	13-Jan-2015
T/7775	ALTAMASH SIDDIQUI	48491	Y	EME	13-Jan-2015
T/7778	YOGEN SHARMA	48494	M	SIGS	13-Jan-2015
T/7779	GAURAV SRIVASTAVA	48495	P	SIGS	13-Jan-2015
T/7780	NAYAN DUBEY	48496	X	ENGRS	13-Jan-2015
T/7781	DEEPAK YADAV	48497	A	EME	13-Jan-2015
T/7784	JOSHI ROHIT KESHAV	48500	P	SIGS	13-Jan-2015
T/7786	C R VIJAY KUMAR	48502	A	ENGRS	14-Jan-2015
T/7795	NASEEB SINGH GILL	48511	F	ASC	26-Jan-2015

The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 239, dated 17th October 2016—The President is pleased to make the following appointments: -

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be 2/ Lt

. Lt Col Santhosh J Varughese (SS-35804N), SIGS of SSC (NT)-56 course was granted Short Service Commission in the rank of 2/Lt under the provisions of Special Army Instructions 11/S/64, as amended, on 21 Aug 93. His name was published in the Gazette of India on 07 May 94. Armed Forces Tribunal, Chennai has granted ante-date seniority of two years to Santhosh J Varughese (SS-35804N), SIGS for the purpose of pay and promotion under the provisions of SAI 1/S/94, as amended. On grant of ante-date seniority he will reckon seniority as 2/Lt wef 25 Aug 91.

This cancels Ministry of Defence, Gazette Notification published on 07 May 94 in respect of SS-35804N 2/Lt Santhosh J Varughese, SIGS.

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

NATIONAL CADET CORPS

MS(D)

No. 240, dated 18th October 2016—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective Universities as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Name of the Vice Chancellor	Dte	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellor
Prof (Dr) Nigam Dave Director & Dean	GUJ	Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar	01-07-2015
Dr Daxesh Rasiklal Thakar Vice Chancellor	GUJ	Veer Narmada South Gujarat University, Surat	23-07-2014
Prof. G.C.R Jaiswal Vice Chancellor	UP	Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad	04-03-2014
Prof (Dr) R P Singh Vice Chancellor	RAJ	JNV University, Jodhpur	05-05-2015
Prof (Dr) S S Sarangedevot Vice Chancellor	RAJ	Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed) University, Udaipur	03-06-2016

AK PANDEY
Brig
Dy Dir Gen (MS)

No. 241, dated 19th October 2016—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

MAJ TO BE LT COL

Pers No	Name	Arms
IC-61641	VIKAS SUHAG	AC

—08 DEC 2014—

PERS NO	NAME	ARMS	Date of Promotion
IC-64969	YUDHVIR SISODIA	EME	06 Nov 2012

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

LT TO BE CAPT

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46841	ANMOL KAPUR	ENGRS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46860	AMIT KUMAR SHARMA	ENGRS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46881	DHAVALA V SAI SRIVATSA	ENGRS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46888	SHEIKH SOHAIL	SIGS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46917	UDIT MALHOTRA	AC	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46932	NEERAJ KUMAR	AOC	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46959	ROHIT SINGH	EME	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46986	HEMANTH S PANDITH	ASC	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
47709	JYOTI PRAKASH MISHRA	INF	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47732	ASHISH PRASAD SHRIVASTWA	EME	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47750	PIYUSH KUMAR RATHORE	SIGS	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47945	S VIGNESH	ENGRS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47946	MANOJ L	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47950	GOTAMJI KANDROO	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47952	PRIYANK KOSLIA	SIGS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47954	GNANA SEKARAN P	ARTY	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47956	SIBIN THOMAS	ENGRS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47959	SUNDARARAJAN B	ARTY	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47960	ABHISHEK SHARMA	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47961	NIKHIL MANMAR	ENGRS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47962	NAIR RAHUL SASIDHARAN	ARTY	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47964	DEEPAK KUMAR	ENGRS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47965	AKASH THAKUR	AVN	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47966	PRIYAVART SANGWAN	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47969	PRAMESH SINGH	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47971	ATHIT HEGDE	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47973	PEREIRA VINIT JOHN	SIGS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47974	ADITYA PRATAP SINGH	SIGS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47978	JAGTARAN SINGH	INT	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47979	ARUN KUMAR SINGH	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47981	PURUSHOTTAM SHARMA	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47984	HARMANDEEP SINGH MANKOO	AVN	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47985	ARUN K H	ENGRS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47988	ANKIT SHARMA	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47989	DEEPU K	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47990	SUSHIL THAKUR	ENGRS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47992	DEEP GUPTA	SIGS	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47995	ANOOP SINGH THAKUR	ASC	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48000	AMAN KAUSHIK	AOC	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48001	SAKTHI KUMAR R	INF	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48004	G BALAKEERTHI	EME	16 Mar 14	SSC-42 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47700	VINAY KUMAR YADAV	ENGRS	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47716	NAMMALAM GUNAWANTH RAO	ENGRS	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47753	KUNAL SINGH KASHYAP	ENGRS	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47755	MANORANJAN BORUAH	ENGRS	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47759	ROHAN HANDA	EME	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47762	SHUBHAM SACHDEVA	SIGS	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47768	ANKUSH NEGI	ARTY	15 Sep 13	SSC-41 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47273	RAHIL KUMAR	SIGS	17 Mar 13	SSC-40 (T)	17 Apr 13	17 Apr 15
47297	PORSELVAN S	INT	17 Mar 13	SSC-40 (T)	17 Apr 13	17 Apr 15
47356	KARTHICK V	ASC	17 Mar 13	SSC-40 (T)	17 Apr 13	17 Apr 15
46847	CHITRANSH GOYAL	ARTY	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46858	TANUJ KUMAR	ENGRS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46862	DEEPAK SHARMA	INF	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46870	VADNALA SANDEEP	INF	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46882	RUDRA PRATAP SINGH PARMAR	ARTY	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46902	SANJEEV KUMAR	INF	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46904	GAURAV UPADHYAY	ASC	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46911	NAVEEN KUMAR	SIGS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46915	SUKHWINDER SINGH	ARTY	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46941	GURSIMRAT SINGH	ASC	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46948	TUSHAR SHANWAL	SIGS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46962	UDAIVEER SINGH RATHORE	MECH INF	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46963	SAJIL K V	ENGRS	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46965	SULABH SETHI	INF	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46966	KULDEEP SHARMA	ARTY	16 Sep 12	SSC-39 (T)	16 Oct 12	16 Oct 14
46656	YANGALADASU RAJESH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46659	ARJUN KUMAR SHARMA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46662	JAYANT BHASKAR PANT	AC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46663	VIRENDRA SINGH DHAKAD	AAD	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46665	AMIT KUMAR	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46666	SANDEEP SINGH ANAND	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46668	KAVERITHILAGESH P K	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46669	JOHN RALPHWANBOK NONGRANG	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46670	KANISHK SETHI	MECH INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46671	MANPREET SINGH GREWAL	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46672	PRERAK NAYAR	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46673	RAHUL RAI	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46675	RAJAT PREET SINGH	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46676	JOSHI NIRANJAN RAVINDRA	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46677	MANU THOMAS	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46678	GOVIND KUMAR BHATT	AC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46680	HERMON HAUH THANG HLUN	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46681	MAHAK MEHTA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46682	SATISH KUMAR MISHRA	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46684	JATIN RAWAT	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46685	NAKUL VERMA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46686	HANWANT SINGH CHARAN	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46687	PANKAJ CHAUHAN	ASC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46688	AKASH SINGH	AOC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46690	BOD BAHADUR GURUNG	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46693	KAMAL GIRI GOSWAMI	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46694	KODILKAR ANISH SHAM	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46695	PRAKASH KUMAR	MECH INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46696	PUNEET	AAD	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46698	RAJAT PATHANIA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46700	NAVEEN BHANDARI	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46701	DURGA PRASAD CHAVALA	ASC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46704	KAUSHALENDER KESHAW KARAN SINGH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46705	JINO F DAWSON	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46706	MAISNAM LUWANGBA MEITEI	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46707	RAHUL JEENGER	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46708	AMIT KUMAR	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46709	AKSHAY SHARMA	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46710	GAURAV GOSWAMI	AAD	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46711	VIJAY SINGH PANWAR	INT	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46712	NAIR TEJAS PRAKASH	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46713	VISHWADEEP DAHIYA	ASC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46714	NITESH SHARMA	MECH INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46715	IQBALJIT SINGH SIHOTA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46716	CHAVA HARSHA VARDHAN	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46717	ARVIND KUMAR	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46718	LAISHRAM KENEDY SINGH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46719	PURUSHOTTAM KUMAR HIRA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46720	DHIRENDRA KUMAR RAO	EME	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46721	KHAKARE NIRANJAN ASHOK	AOC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46724	A RAJESH KUMAR	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46725	SHUKLAMBAR PRALHAD PATTAR	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46726	JADHAV SMIT MADHUKAR	EME	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46728	BHANU PARTAP SINGH DADWAL	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46729	KONSUAM JUJA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46730	SACHIN KUMAR	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46732	NAVEEN SHARMA	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46733	RAHUL SINGH	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46734	SAHYOG CHHETRI	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46736	ABHINAV DETHA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46738	BALWINDER SAINI	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46739	KACHAPILLY JOHN ABRAHAM	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46741	KEWARE SACHIN PANDHARINATH	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46742	KANISHKA SEAL	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46743	VIVIAN VARGHESE	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46744	MANISH ZARANDE	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46745	MUKESH SINGH BISHT	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46746	RAJIV KUMAR CHAUDHARY	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46748	P SARAVANA NAIDU	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46750	ASHISH CHAND	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46751	ROHIT GARG	EME	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46755	ABHIMANYU SINGH RANAWAT	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46756	AYUSH MISHRA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46757	SHIVESHVAR YADAV	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46759	RACHIT SHARMA	AC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46761	DHIRAJ SINGH TANWAR	ASC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46762	RAKESH NEHRA	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46763	BRIJESH KUMAR SINGH	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46764	RAHUL DILER	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46765	PRINCE JOY FERNANDEZ	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46766	AVISHEK KUMAR	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46767	BHUPENDER MALHAN	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46769	VARUN KUMAR SRIVASTAVA	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46770	CHIRAG YADAV	AOC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46771	ABHISHEK KAUSHIK	AAD	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46772	AKASH MOR	MECH INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46773	M LONGNYU	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46774	ANUGRAHA ISSAC SINGHA	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46776	SATENDRA SINGH BUNDELA	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46777	DAYANAND KUMAR YADAV	ASC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46778	PANKAJ KUMAR SINGH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46779	SARTAJ SINGH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46780	ABHISHEK GHOSH	EME	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46781	JASMEET SINGH BHATIA	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46782	VENKATRAMANAN AKSHAY	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46783	KUIRENG RAGUI	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46785	MASUREKAR JAIDIP PRADIP	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46786	GIRISH ARORA	AC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46787	DANIEL RAO	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46788	PUSPENDRA SINGH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46791	GURWINDER SINGH	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46792	PREMSUKH GODARA	MECH INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46794	VARUN PATHANIA	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46795	MAYANK YADAV	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46796	SURAJ KUMAR	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46797	DHANANJAI SINGH RANA	AC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46798	ANCHAL VISHWAMITRA	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46799	JAYANT KUMAR DUBEY	AVN	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46803	ROHIT KUMAR GREWAL	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46804	PRANJAL BHANDA	ENGRS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46805	NETRAPAL SINGH CHOUHAN	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46806	PRADEEP PATIL	AAD	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46807	DEVENDRA KUMAR RAI	AAD	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46808	RAVI MATHAI	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46809	VIVEK KUMAR TIWARI	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46810	KIRAN N	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46811	ANKIT KASHYAP	AOC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46812	MANISH SHARMA	AOC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46813	DVS NARENDRA	SIGS	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46814	JAUHARI MAYANK DEEPAK	ARTY	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46815	PEDDINA VENKATA ROHIT	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46817	MOYARA MAYUR	MECH INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46818	KAMALESH NATH	ASC	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46819	JAI SINGH	INF	14 Sep 13	SSC-96 (NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

LT TO BE CAPT

SS No	Name	Arm	Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
46231	KANCHAN DHARNIA	ASC	16 Mar 13	SSCW-09 (NT)	16 Oct 13	16 Oct 15
46658	HAOBAM BELLA DEVI	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46660	KIRANDEEP KAUR	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46661	SHETTY ASHWINI SADASHIV	AAD	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46664	BHARTI SANSANWAL	AVN	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46667	VANDANA TEJI	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46674	APRAJEETA SHARMA	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46679	THEJASWINI V	SIGS	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

46683	SHUBHNEET INDERJIT KAUR	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46689	KHOBARE PRIYANKA PRAKASH	INT	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46691	ASMITA CHHETRI	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46692	MINI M	AAD	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46697	GAGANDEEP KAUR	SIGS	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46699	GAYATREE MISHRA	AAD	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46702	NEELAM DHIMAN	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46703	PRIYA PAYAL	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46722	PRATIMA B SURYAVANSHI	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46727	SUNITA	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46731	VARGHESE SUSAN JOY	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46735	PINKI	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46737	DEEPTI JADLI	EME	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46740	MONIKA MISHRA	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46747	SANDHYA CHATURVEDI	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46749	ARCHANA SINGH	EME	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46752	NEHA SIGHROHA	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46753	MANISHA RANA	AAD	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46754	NITIKA GOGNA	AAD	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46758	PARASHARE TEJAL VIJAY	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46768	M AISHWARYA	AAD	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46775	AVANTIKA SHARMA	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46784	GEETIKA CHAUDHARY	SIGS	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46789	NAMRATA DAS	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46790	YAMINI YADUWANSHI	ASC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46793	R SUBHASHINI	EME	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16

46800	DIMPLE MARY FRANCIS	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46801	KIRAN BALA	ENGRS	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46802	CHATURVEDI PAYODHI NARESH	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
46816	JYOTIKA GURUNG	AOC	14 Sep 13	SSCW-10(NT)	14 Apr 14	14 Apr 16
47704	AMRITA YADAV	ASC	15 Sep 13	SSCW-12 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47727	CHHAVI GUPTA	SIGS	15 Sep 13	SSCW-12 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47729	SHIMPY SINHA	EME	15 Sep 13	SSCW-12 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47764	MANASVI SRIVASTAVA	EME	15 Sep 13	SSCW-12 (T)	15 Oct 13	15 Oct 15
47951	MALVIKA SHARMA	SIGS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47953	JYOTI RATHEE	SIGS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47958	RAMANDEEP KAUR	EME	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47968	AMREEN MALIK	ENGRS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47975	NAVNEET SANDHU	SIGS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47982	SHIKHA SURABHI	SIGS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47983	ARCHANA PANDEY	EME	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47986	S ARCHANA	SIGS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47991	SHAILA RAIS	ENGRS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47994	POOJA RANI KHATEI	EME	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47996	MAHIMA	SIGS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
47999	SHUBHRA MISHRA	ENGRS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48005	S AISHWARYA	ENGRS	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16
48008	SUDHA V	EME	16 Mar 14	SSCW-13 (T)	16 Apr 14	16 Apr 16

MP SHARMA
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 242, dated 20 October 2016—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Part I Section IV published on 08 Sep 2012 under the heading “Regular Army, Permanent Commission, and sub heading “Maj to be Lt Col” the names of the following officer is deleted :-

SS-38573 YUDHVIR SISODIA, EME

MP SHARMA
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH
CORRIGENDA

No. 243, dated 21st October 2016—The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(to be Lt w.e.f 12 Jun 2004)

In the Gazette Notification with respect to 114 Regular Course published in the Gazette of India Ministry of Defence in Part I Section IV dated 09 Apr 2005 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :-

For	HARSHVARDHAN SINGH	IC-63845M	INF
Read	HARSHVARDHAN SINGH	IC-63845N	INF

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(to be Lt w.e.f 14 Dec 2013)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 133 Regular Course published in the Gazette of India dated 29 Nov 2014 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	RAMSUKH DUKHIYA	IC-78327L	EME
Read	RAMSUKH DUKIYA	IC-78327L	EME

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in